

08/09/2022

BSE Limited
Department of Corporate Services
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street,
Mumbai — 400 001
Scrip Code: 532771

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex Mumbai - 400051 Trading Symbol: JHS

<u>Sub: Submission of copies of newspaper advertisement under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")</u>

Dear Sir/Madam,

This is inform that 18th Annual General Meeting (AGM) of the Company is scheduled to be held on Friday, September 30, 2022 at 11:00 A.M. through Video Conferencing (VC).

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisement(s) given by the company in relation to 18th AGM of the Company published in "Business Standard (English)" and "Business Standard (Hindi)" on Thursday, September 08, 2022 in accordance with the relevant circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs and Securities and Exchange Board of India.

The said publications are also being made available on the website of the company i.e. www.svendgaard.com.

This is for your information and records.

Thanking You,

For JHS Svendgaard Laboratories Limited

New Delhi

Ashish Goel

Chief Financial Officer



671 डीकेएसएच संग समझौता किया ₹ 652.9 पिछला बंद भाव ₹ 666.4 आज का बंद भाव सिप्ला _1,060 1.050.60 1.040.70 1,000 Sep 2022 Sep Sep

रेवलिमिड के जेनेरिक संस्करण के लिए मिली यूएसएफडीए की मंजूरी ₹ 1,040.7 पिछला बंद भाव ₹ 1,050.6 आज का बंद भाव

इन्फोसिस 1,464.40





0.7 %

सीपीआर के खिलाफ चला तलाशी अभियान

आयकर विभाग ने बुधवार को दिल्ली स्थित शोध संस्थान 'सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च' (सीपीआर) के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। भाषा

राणा कपूर पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को ऋणदाताओं को अतिरिक्त टियर-1 (एटी 1) बॉन्ड की बिक्री गलत जानकारी देकर करने के मामले में येस बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ राणा कपूर पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। बाजार नियामक ने अपने आदेश में कहा है कि कपूर ने अपनी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट (पीडब्लुएम) टीम के अधिकारियों पर वाईबीएल / व्यक्तिगत निवेशकों के असहाय ग्राहकों पर एटी-1 बॉन्ड डंप करने के लिए दबाव डाला।

तहत चालू कन्सर्न के रूप में बिक्री।

कन्सर्न के रूप में बिक्री

स्थान : नोएडा

admin@eauctions.co.in

आस्ति

वीनस रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड

परिसमापनाधीन, कार्पोरेट देनदार की भारती

दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता बोर्ड (परिसमापन

प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 32ए के

साथ पठित विनियम 32 (ई) के तहत चालू

वीनस रोलिंग मिल्स प्रा. लि.- परिसमापन में

ई-नीलामी बिक्री सूचना

माननीय राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण पीठ, मुम्बई द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा विरचित परिसमापन सम्पदा के अंश वीनस रोलिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन

. ई-नीलामी चालू कन्सर्न के रूप में "जैसा है जहां है आधार", "जो है जैसा है आधार" "जो भी है वहां है आधार" तथा "कोई वापसी नहीं आधार" पर अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स लिंकस्टार इन्फोसिस प्रा. लि. के माध्यम से संचालित की जाएगी। यह बिक्री ई—नीलामी प्रक्रिया सूचना दस्तावेज में निर्धारित नियम एवं शर्तों के तहत की जाएगी तथ

www.eauctions.co.in पर उपलब्ध हैं, सम्पर्क : श्री दीक्षित प्रजापति 7874138237, ई-मेल

क्यानामुख्यवराजाज्ञ का अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले, आस्तियों के स्वामित्व के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच कर लेनी चाहिए और आस्तियों इत्यादि का निरीक्षण कर लेना चाहिए। स्थल दौरे की व्यवस्था liquidatorympl@gmail.com पर लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर की जाएगी। सफल बोलीदाता को सभी लागू ड्यूटीज / अंतरण प्रमार, शुल्क, जीएसटी इत्यादि वहन करने होंगे। बिक्री दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधानों और उसके अधीन विरक्षित विनियमें

के तहत होगी। परिसमापक द्वारा पोर्टल www.eauctions.co.in पर ई—नीलामी में भाग लेने हेतु ग्राह्य बोलीदाताओं के नाम बिहिनत किए जाएंगे। ई—नीलामी सेवा प्रदाता लिंकस्टार इन्फोसिस प्रा.

लि. ग्राह्म बोलीदाताओं को यूजर आईडी और पासवर्ड ई—मेल द्वारा उपलब्ध कराएगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि, इस आमंत्रण का अभिग्राय संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करना है तथा यह बिक्री को अमल में लाने के लिए परिसमापक अथवा कम्पनी की ओर से किसी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व सृजित नहीं करता है। परिसमापक का बिना कोई कारण बताए और बिना किसी दायित्व के, बिक्री लियत, परित्यक्त / निरस्त / आगे बढ़ाने अथवा प्रक्रिया शतों में संशोधन करने तथा / अथवा ई—नीलामी प्रक्रिया के किसी भी चरण में, किसी भी संभावित बोलीदाता / बोली / ऑफर को अस्वीकार अथवा अयोग्य करार देने का अधिकार सुरक्षित है। प्रतिभागियों के लिए ग्राह्मता मानदंड ई—नीलामी प्रक्रिया प्रकृत्य स्वना दस्तावेज में वर्णित हैं। बोली दस्तावेजों का विवरण तथा ईएमडी मुगतान का विवरण परिसमापक के कार्यालय में भौतिक रूप से अथवा इ—मेल द्वारा, नीचे दिए पते पर 19–09–2022 को अथवा पूर्व अप. 05.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।

जेएचएस स्वेंदगार्ड लैबोरेट्रीज लिमिटेड

कॉर्पोरेट पहचान संख्या : L24230HP2004PLCO27558

पंजीकृत कार्यालय : त्रिलोकपुर रोड, खेड़ी कला-एएमबी,

तहसील-नाहन, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

दूरभाष नं. : 011-29949675 तथा फैक्स नं. : 01702-238830

वेबसाइट : www.svendgaard.com • ई-मेल : enquiry@svendgaard.com

वार्षिक आम बैठक के संबंध में सचना

एतद्वारा यह सचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम. 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों. भारतीर

. प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और उद्घाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वार

जारी पर्व के परिपत्रों 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 और 5 मई, 2020, 13 जनवरी, 2021 और 14 दिसंबर, 2021 के

साथ पठित सामान्य परिपत्र दिनांक 5 मई, 2022 (सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के अनुपालन गं

एजीएम बलाने की सचना में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए जेएचएस स्वेंद्रगाई लैंबोरेटीज लिमिटेड

वीडियो कॉन्फ़ॉसिंग ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित को जाएगी। उक्त एमसीएसी परिपत्रों और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड ('सेसी') के दिनांक 12 मई, 2020 और 15 जनवरी

2021 के परिपत्र के साथ पितत परिपत्र दिनांक 13 मई. 2022 (इसके बाद में 'सेबी परिपत्र' के रूप में संदर्भित) वे

अनुपालन में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक

रूप से भेजी जाएगी, जिनके ई-मेल पते सितंबर, 2022 तक कंपनी/रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट/डिपॉजिटरी प्रतिभागियं

के साथ पंजीकृत हैं। कोई सदस्य हमें cs@svendgaard.com पर लिखकर उसकी हार्ड कॉपी की मांग कर सकता है

क ताल जानमुं तर्पान के त्रान विस्ता व स्ताता व स्ता व स्ताता व स्ताता व स्ताता व स्ताता व स्ताता व स्ताता व स्ता

की वेबसाइट www.nseindia.com तथा साथ ही नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की

कंपनी ने वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने और ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए अधिकत एजेंस

के रूप में एनडीएसएल की सेवाएं ली हैं। शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 की कट-ऑफ तिथि तक डीमैट रूप में शेयर धारण

करने वाले कंपनी के सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं और एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएग

के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे एनडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम में लॉग इन करें।

सदस्य अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके एनडीएसएल ई-वोटिंग सिस्टम पर रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपन

वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग की सुविधा एजीएम के दौरान उन सदस्यों को भी उपलब्ध कराई जाएगी जो एजीएम में शामिल

होंगे और जिन्होंने पहले अपना वोट नहीं डाला है। वे सदस्य जिन्होंने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट

डाला है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं/उपस्थित हो सकते हैं लेकिन दुवारा अपना वीत

डीमैटीरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों द्वारा और जिन सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उन

चूंकि, कंपनी के सभी सदस्यों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं, इसलिए उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज

जैसा डीपी द्वारा अपेक्षित हो, जमा करके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस ('डीपी'), जिनके साथ वे उनका डीमैट खाता प्रवस्थि

सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सुचना में दिए गए सभी नोट्स और विशेष रूप से एजीएम में शामिल होने के निर्देश

एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम के दौरान ई-वोटिंग के माध्यम से वोट डालने के तरीके को ध्यान से पढ़ें।

जिन सदस्यों ने कंपनी या आरटीए के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत नहीं किया है, वे एजीएम की सुचना, वार्षिक रिपोट

और ई-वोटिंग सहित वीसी के माध्यम से एजीएम में शामिल होने के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने हेतु अपना नाम, फोलिय

नंबर / डीपीआईडी ??और क्लाइंट आईडी, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति (डीमैंट होल्डिंग के मामले

में), शेयर प्रमाण पत्र की प्रति – आगे और पीछे (भौतिक होल्डिंग के मामले में), स्व-सत्यापित पैन कार्ड की स्कैन की हुई

पति और आधार कार्ड की रूच-सत्यापित स्क्रेन की गई प्रति कम्पनी को cs@svendgaard.com पर प्रदान कर ईं-मेर पते के पंजीकरण के समर्थन में अपना ईं-मेल पता पंजीकृत कर सकते हैं।

यदि ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी में पंजीकृत है, तो ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण सदस्य के पंजीकृत

ईमेल पते पर भेजे जा रहे हैं। वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए इसी क्रेडेंशियल्स का उपयोग किया जान

चाहिए। यदि सदस्य पहले से ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए पंजीकृत है, तो सदस्य एनएसडीएल की रिमोट ई-वोटिंग सुविध

के लिए मौजुदा लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग कर सकता है और वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए भी उर्स

क्रेडेंशियल का उपयोग किया जा सकता है। पंजीकरण के बारे में अधिक जानकारी और सूचना के लिए, कृपया एजीएम क

सूचना देखें। कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सुविधा और वीसी सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में एनएसडीएल की सेवाएं र्ल

हैं। एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग से संबंधित मुद्दों और चिंताओं सहित किसी भी प्रश्न के मामले में, आप

www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध Frequently Asked Questions(FAQs) for

Shareholders तथा e-voting user manual for Shareholders देख सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800-1020 990 और 1800 22 44 30 पर कॉल करें या evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजें या सुश्री पल्लावी

म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, टेड वर्ल्ड, 'ए1' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड

सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013, निर्दिष्ट ईमेल पताः pallavid@nsdl.co.in/ evoting@nsdl.co.ir

कृते जेएचएस स्वेन्दगार्ड लेबोरेटरी लिमिटे

लिए रिमोट से वोटिंग (रिमोट ई-वोटिंग) सहित मतदान का तरीका इस एजीएम की सचना में प्रदान किया जाएगा।

रिमोट ई-वोटिंग, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भागीदारी और एजीएम में ई-वोटिंगः

वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध होंगे।

है, के साथ अपना ईमेल पता और डिविडेंड मैंडेट रजिस्टर/अपडेट करें।

या टेलीफोन नंबर +9122 2499 4545 से संपर्क करें।

डालने के हकदार नहीं होंगे।

) के सदस्यों की 18वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') शुक्रवार, 30 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्र 11:00 बजे

कार्यालय सं. 216, द्वितीय तल, टावर—1, सेक्टर—135, नोएडा, उत्तर प्रदेश—20130६

ई–मेल आईडी : dev_singh2006@yahoo.com , liquidatorvrmpl@gmail.com

पंजीकरण सं. : IBBI/IPA-002/IP-N00001/2016-17/1000

मोबाइल : 9810331877, 9810339416

लि. ग्राह्म बोलीदाताओं को यूजर आईडी और पासवर्ड ई-मेल द्वारा उपलब्ध कराएगा।

समयसीमाओं में किसी भी परिवर्तन की सूचना बोलीदाताओं को दी जाएगी।

सुरक्षित मूल्य (राशि मारतीय (सुरक्षित मूल्य की 10%) रूपए में) (राशि मारतीय रूपए में)

1,60,00,000

16,00,00,000

में) की दिवाला एवं ऋणशोध अक्षमता संहिता, 2018 और उसके अधीन विरचित विनियम

जी एंटरटेनमेंट को 14 अक्टूबर को बैठक बुलाने का एनसीएलटी का निर्देश

बीएस संवाददाता

मुंबई, 7 सितंबर

1.3 %

शनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के मुंबई पीठ ने बुधवार को जी एंटरटेनमेंट को निर्देश दिया कि वह कल्वर मैक्स एंटरटेनमेंट (पूर्व में सोनी पिक्चर्स नेटवर्क) के साथ विलय को मंजूरी देने के लिए 14 अक्टूबर को शेयरधारकों की बैठक आयोजित करे।

यह आदेश 24 अगस्त को पारित हुआ था, लेकिन एक्सचेंजों पर बधवार को अपलोड किया गया। इससे पहले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कह चुका है कि 10 अरब डॉलर का विलय सौदा प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकता है। आयोग ने

YES BANK

जबकि



कहा था कि इस विलय की विस्तृत जांच की दरकार है।

एनसीएलटी के आदेश में कहा आवेदक कंपनी (ज़ी) 14 किया जा सके।

जी एंटरटेनमेंट के प्रवक्ता ने बुधवार को जारी बयान में इन्हीं तथ्यों को दोहराया है।

पिछले हफ्ते जी ने अपना शुरुआती आकलन सार्वजनिक होने के बाद सीसीआई को ताजा टीवी दर्शकों के आंकडों का हवाला देते हुए पत्र लिखकर कहा था कि विलय के बाद बनने वाली इकाई की बाजार हिस्सेदारी कम होगी और इससे शक्ति का संकेंद्रण नहीं होगा।

ज़ी ने टीवी दर्शकों के मार्च 2022 में समाप्त वित्त वर्ष और मौजूदा वित्त वर्ष के आंकड़े जमा कराए थे। आंकड़े बताते हैं कि विलय के बाद बनी इकाई के चार चैनलों की हिस्सेदारी मार्च 2021 में समाप्त वित्त वर्ष के मुकाबले घटी, जिस आंकड़े का इस्तेमाल

> जांच के लिए कर रहा था। कुछ कानूनी विशेषज्ञों है कि कहा प्रस्त ावित विलय आगे

सीसीआई जी-

सोनी विलय की

अगर ये समायोजन कर

बढ़ सकता है

स्पाइसजेट-कलानिधि मारन विवाद

सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज करेंगे मध्यस्थता

बीएस संवाददाता नई दिल्ली, 7 सितंबर

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट और उसके पर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन के बीच विवाद में मध्यस्थता के लिए अपने पूर्व न्यायाधीश पीवी रेड्डी को जिम्मेदारी सौपी है। स्पाइसजेट ने बुधवार को यह जानकारी दी।

यह विवाद वर्ष 2015 में तब पैदा हुआ था जब मारन ने वित्तीय संकट से जूझने वाली स्पाइसजेट में अजय सिंह को अपनी 58.46 प्रतिशत या 5.04 करोड़ शेयरों की बिक्री महज 2 रुपये प्रति शेयर में की थी।

एक साल बाद, मारन ने सिंह पर 18.7 करोड़ शेयर वारंट और तरजीही शेयर जारी नहीं करने (मारन द्वारा 679 करोड़ रुपये लगाए जाने के बावजद) का आरोप लगाते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में गुहार लगाई। उन्होंने स्पाइसजेट और सिंह से 1,300 करोड़ रुपये का दावा किया। जुलाई, 2016 में, उच्च न्यायालय ने मारन और सिंह को मध्यस्थता पंचाट के जरिये विवाद निपटाने

इस पंचाट में सर्वोच्च न्यायालय के तीन सेवानिवृत न्यायाधीश शामिल थे और 2018 में मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज के हर्जाना संबंधित दावों को ठुकरा दिया गया। सितंबर 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट से मारन को 243 करोड़ रुपये

सौंपने का कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पाइसजेट की याचिकाएं सुनने के बाद नवंबर 2020 में इस आदेश पर रोक लगा दी।

पिछले महीने, दोनों पक्षों ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वे आपसी सहमति वाला निपटारा चाहते हैं। इसलिए, 16 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने इस विवाद में मध्यस्थता का आदेश दिया और हैदराबाद मेडिएशन सेंटर को निपटान संबंधित बातचीत आगे बढ़ाने को कहा।

बुधवार को, स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा, 'सर्वोच्च न्यायायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश पीवी रेड्डी को स्पाइसजेट और उसके पूर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज के बीच विवाद में मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त किया गया है।'

सर्वोच्च न्यायायालय ने दोनों पक्षों के संयुक्त अनुरोध पर जस्टिस (सेवानिवृत) रेड्डी की नियुक्ति का आदेश दिया है और आपसी सहमति के साथ मध्यस्थता तलाशने के लिए आगे लाया जा सकता है। आदेश में कहा गया है कि इससे यह मामला जल्द निपट सकता है। इसमें कहा गया है, 'दोनों पक्षों को जल्द से जल्द संबद्ध मध्यस्थ से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है।'

स्पाइसजेट को पिछले चार साले से नुकसान का सामना करना पड़ा है।

'शेयरधारकों की हो बैठक'

गया है, ट्रिब्यूनल आदेश देता है कि

अक्टूबर, 2022 को शाम चार बजे इक्विटी शेयरधारकों की बैठक बलाए ताकि प्रस्तावित विलय की योजना को मंजूरी देने पर विचार

येस बैंक लिमिटेड पंजीकत और कारपोरेट कार्यालय: येस बैंक हाऊस. ऑफ वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सांताकृज ईस्ट. मंबई-40005

सीआईएनः L65190MH2003PLC143249, ई—मेलः communications@yesbank.in, वेक्साइटः www.yesbank.ir [नियम—8(1)] सांकेतिक कब्जा सूचना

येस बैंक लिमिटेड के अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पूनर्निर्माण और प्रतिमृति हित प्रवर्तन

अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर यहाँ नीचे उल्लिखित संबंधित कर्जदार, बंधककर्ता और जमानती को मांग सूचना जारी की थी जिसमें उनसे सूचना में उल्लिखित राशि और इस पर आगे की ब्याज एवं अन्य प्रभारों को उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर अदा कर्जदार और जमानतियों द्वारा पूर्ण राशि अदा न कर पाने पर कर्जदार, जमानतियों तथा जन सामान्य को एतदद्वारा सूचित किया जात

है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और जमानतियों तथा सर्व जन को सामान्य रूप में उक्त संपत्ति से कोई भी लेनदेन न करने के लिए आगाइ किया जाता है तथा इन संपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन नीचे वर्णित बकाया राशि और इस पर ब्याज और लागतों के लिए येस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रत्याभृत परिसंपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का कर्जदार, बंधककर्ता और

सं.	सह-कर्जदार के नाम	का विवरण	देय (रु.)	कब्जे की तारीख
1.	1. मेसर्स भगवान दास रघुनाथ परसाद प्रॉप. श्री जितन पुत्र श्री कुंज बिहारी 2. श्री कुंज बिहारी पुत्र दुली चंद पताः पुरानी अनाज मंडी, जिला जींद—126102, अन्य पताः एच.नं. 215, गांधी नगर, जिला जींद, हरियाणा—126102	माप 55 वर्ग गज दुकान जिसका नगर निगम नं. 1810/16, पुरानी अनाज मंडी में, जींद, नगर निगम जींद के एरिया में, हरियाणा—126102 बंधककर्ताः श्री कुंज बिहारी पुत्र दुली चंद	40,59,222.38/ – दिनांक 18.01.2022 को	05.02.2022 02.09.2022
	 मेसर्स टीका राम दुली चंद प्रॉप. श्री खुंज बिहारी पुत्र दुली चंद श्री जितन पुत्र श्री कुंज बिहारी पता: पुरानी अनाज मंडी, जिला जींद–126102, अन्य पता: एच.नं. 215, गांधी नगर, जिला जींद, हरियाणा—126102 	माप 55 वर्ग गज दुकान जिसका नगर निगम नं. 1810 / 16, पुरानी अनाज मंडी में, जींद, नगर निगम जींद के एरिया में, हरियाणा—126102 बंधककर्ताः मेसर्स टीका राम दुली चंद	54,77,136.06 /- दिनांक 19.01.2022 को	05.02.2022 02.09.2022
दिनांकः 02.09.2022 हस्ता./-(प्राधिकृत अधिकारी)				

लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस

सीआईएन: L63090CH2012PLC033556

पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 342, इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, चंडीगढ़ दूरभाषः 0172-2650380, वेबसाइटः www.tarachandindia.in ई-मेलः cs@tarachandindia.in

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित होने वाली 10वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, ई-वोटिंग की जानकारी और बुक क्लोजर

एतदवारा सचना दी जाती है कि कॉपोरेंट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2020, सामान्य परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020, परिपत्र संख्या 02/2021 दिनांक 13 जनवरी 2021, परिपत्र संख्या 19/2021 दिनांक 8 दिसंबर 2021 परिपत्र संख्या 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 5,2022 ('एमसीए परिपत्र') तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और परिपत्र सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/सीआईआर/पी/2022/62 दिनांक 13 मर्ड, 2022 ('सेबी परिपत्र') और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा सेबी (सचीबद्धता दायित्व एवं उदघाटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सचीबद्धता विनियम/सेबी सूचीबद्धता विनियम') के प्रावधानों के अनुपालन में, 10वीं एजीएम बुलाने के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय का लेन-देन करने के लिए तारा चंद लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरधारकों की 10वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') गुरुवार, 29 सितंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (भा.मा.स.) वीडियो

कॉन्फ्रेंस ('वीसी')/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों ('ओएवीएम') के माध्यम से आयोजित की जाएगी, कंपनी की 10वीं वार्षिक आम बैठक ('10वीं एजीएम/एजीएम') वीसी/ओएवीएम सर्विधा के माध्यम से आयोजित की जा रही है. जिसके लिए किसी आम स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी। 10वीं एजीएम के लिए परिकल्पित स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय होगा। . उपरोक्त परिपत्रों के अनुपालन में, एजीएम की सुचना, वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण सहित वार्षिक रिपोर्ट उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज दी गई है, जिनकी ई-मेल आईडी कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/आरटीए के साथ पंजीकृत है। सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 07 सितंबर, 2022 को पुरा कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021–2022 के लिए 10वीं वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रो और सेबी परिपत्र के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सचना कंपनी की वेबसाइट

www.tarachandindia.in पर और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सुचीबद्ध हैं, यानी एनएसई लिमिटेड www.nscindia.com पर तथा लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एलआईआईपीएल) की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है। ई–मेल पते को पंजीकत/अद्यतन करने का तरीकाः जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ई–मेल आईडी पंजीकत नहीं किया है. उनसे अनरोध है कि वे अपनी ईमेल

आईडी को निम्नानमार पंजीकत करवाएं भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले और जिन्होंने अपना ईमेल पता अपडेट नहीं किया है. उनसे अनरोध है कि वे कंपनी के रजिस्टार और शेयर टांसफर एजेंट.

अर्थात मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के साथ उनकी वेबसाइट (www.linkintime.co.in) पर फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति आदि आवश्यक विवरण प्रदान करते हुए अपन ईमेल पता अपडेट करें। 2 डिमटेरियलाइन्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक: कपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल -16 अंक लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल -16 अंक डीपीआईडी

सीएलआईडी), क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति), आधार कार्ड (आधार कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति) कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अर्थात मैसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को उनकी वेबसाइट (www.linkintime.co.in) पर प्रदान करें। 3. ई–मेल पते को पंजीकृत करने में किसी भी प्रश्न/कठिनाई के मामले में, शेयरधारक लिंक इनटाइम को rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर लिख सकते हैं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग और उसके तरीके: शेयरधारकों को सचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में [किसी भी परिवर्द्धन(नों), संशोधन(नों) या उसके पुनः अधिनियमन सहित], सेबी (एलओडीआर), 2015 के विनियमन 44 और 'आम बैठक' पर सचिवीय मानक –2 (एसएस –2) के अनुपालन में, कंपनी एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर एजीएम से पहले अपने शेयरधारकों को वोट डालने के लिए रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, कंपनी एजीएम के दौरान ई-वोटिंग ('ई-वोटिंग') सिस्टम के माध्यम से वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रही है।

रिमोट ई-वोटिंग की अवधि सोमवार, 26 सितंबर, 2022 (सबह ९ बजे भा.मा.स.) से शरू होगी और बधवार, 28 सितंबर, 2022 (शाम 5:00 बजे भा.मा.स.) के समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि, यानी गुरुवार, 22 सितंबर, 2022 तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले कंपनी के शेयरधारक, एजीएम की सूचना में निर्धारित सामान्य और विशेष व्यवसाय पर एलआईआईपीएल की इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से रिमोट ई-वोटिंग द्वार अपना वोट डाल सकते हैं और शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार उक्त कट-ऑफ तिथि तक कंपनी की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी में उनकी हिस्सेदारी के अनुपात में होंगे। रिमोट ई-वोटिंग मॉडयल को एलआईआईपीएल द्वारा उसके बाद वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा और शेयरधारक को उक्त तिथि और समय के बाद इलेक्टॉनिक रूप से वोट करने की अनमति नहीं दी जाएगी। एक बार किसी संकल्प पर शेयरधारक द्वारा वोट दिए जाने के बाद, शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वे शेवरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में उपस्थित होंगे और रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा ऐसा करने से प्रतिबंधित नहीं हैं, वे ई–वोटिंग प्रणाली के माध्यम से एजीएम में मतदान करने के पात्र होंगे। जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान किया है, वे एजीएम में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, लेकिन एजीएम में डुबारा मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा प्रबन्धित लाभभोगी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है. केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साध एजीएम में वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए और उन शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नहीं किया है, रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग सिस्टम का तरीका एजीएम की सूचना में विस्तार से प्रदान किया गया है। विवरण कंपनी की वेबसाइट www.tarachandindia.in और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के इक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, अर्थात एनएसई लिमिटेड www.nseindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति, जो शेयर अर्जित करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारणकरता है, वह rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालांकि, यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए एलआईआईपीएल के साथ पहले से पंजीकृत है तो वह वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। डीमैटीरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग का तरीका और उन शेयरधारकों के लिए जिन्होंने अपना ई-मेल पता पंजीकृत नही किया है, एजीएम की सचना में प्रदान किया गया है।

एजीएम में शामिल होने तथा रिमोट ई-वोटिंग एवं एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम जुड़ी सभी शिकायतों को instameet@linkintime.co.in पर ईमेल भेजकर संबोधित किया जा सकता है या संपर्क करें: –दूरभाष: 022–49186175.

श्री आनंद सुब्रतो मुखर्जी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी (सदस्यता संख्या एफसीएस एफ1804) को एजीएम में आयोजित की जाने वाली रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया और ई-वोटिंग की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है।

रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के परिणाम एजीएम के समापन से अधिकतम 48 (अइतालीस) घंटे के भीतर घोषित किए जाएंगे। स्क्रटिनाइजर रिपोर्ट के साथ घोषित परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.tarachandindia.in और एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सचीबद्ध हैं www.nseindia.com फ रखे जाएंगे।

बुक क्लोजरः कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 91 और लागू सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के अनुसार, 10वीं वार्षिक आम बैठक के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रिकॉर्ड लेने के लिए कंपनी के सदस्य और शेयर ट्रांसफर चुक्स का रजिस्टर शुक्रवार, 23 सितंबर, 2022 से गुरुवार 29 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेगा। कृते तारा चंद लॉजिस्टिक सॉल्यूशन्स लिमिटेड

तिथि : 8 सितम्बर, 2022 स्थान : चण्डीगढ

विनय कुमार (प्रबन्ध निदेशक) डीआईएन : 00151567

सेमीकंडक्टर उत्पादन में सहयोग करें भारत-अमेरिका: अदाणी

बीएस संवाददाता मुंबई, 7 सितंबर

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने बुधवार को कहा कि भारत और अमेरिका को तापमान परिवर्तन, सेमीकंडक्टर उत्पादन, रक्षा और साइबर सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर देना चाहिए।

मुंबई में यूएसआईबीसी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्राप्त करने वाले अदाणी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी सदी की बेहद निर्णायक साझेदारियों में से एक होगी।

इस अवसर पर अपने भाषण में अदाणी ने कहा, 'भारत-अमेरिका संबंध को मजबूत बनाए जाने के लिए पारस्परिक सहयोग बेहद जरूरी है। नई संभावनाओं का आधार तैयार करने के लिए दोनों देशों को मुक्त व्यापार, निष्पक्षता, और एक-दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं के समेकन पर जोर देना जरूरी है।'

विकासशील देशों को सहायता देने वाले विकसित देशों के बारे में बात की गई, लेकिन खासकर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अधिक प्रयास किए जाएंगे।

पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड CIN: L01115HR1994PLC032244, पंजीकृत कार्यालय: गांव भावसों, उम्री-इंद्री रोड, तहसील इंद्री, जिला करनाल, (हरियाणा) Phone No. 0172-4660993.

वार्षिक आम सभा, बुक क्लोजर और ई—वोटिंग की जानकारी की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की अठाइसवीं वार्षिक आूम बैठक कॉमन स्थान पर सदस्यों की अनुपस्थिति के बिना ("एमसीए परिपत्रों") द्वारा जारी नवीनतम साधारण पुरिपत्र सं. 2 / 2022 दिनांक 05 मुई, 2022 के सहित निगमित मामलों के मंत्रालय द्वार विभिन्न परिपत्रों और भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्रा") के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 और उसके अंतर्गत बने नियमों व सेबी (सूचीबद्ध प्रकीटकरण व प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के लागु प्रावधानों के अनुपालन में वीडिय कांफ्रेसिंग "(वीसी") / अन्य वीडियो विजुअल माध्यमों ("ओएवीएम") के माध्यम बुधवार, 28 सितंबर, 2022 को शाम 4.30 बजे आयोजित की जाएगी।

र्मसीए परिपूत्रों और सेबी परिपूत्र के संबंध में, एजीएम की सूचना व वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण (समग्र व स्टैंडलोन) के साथ ई-मेल द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजी जा चुकी हैं जिनके ई-मेल कंपनी / डिपोजिटरी प्रतिमागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना व वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपन्नों व सेबी परिपन्न के तहत खारिज की गई है।

21 सितंबर, 2022 तक भौतिक या गैर–भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के इलैक्ट्रानिक वोटिंग सिस्टम वे माध्यम से एजीएम की सूचना में वर्णित साधारण व विशेष व्यवसीय पर इलैक्ट्रानिक रूप से वोट डाल सकते हैं। सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि :

एजीएम की सूचना में वर्णित अनुसार साधारण व विशेष व्यवसाय पर इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग द्वारा लेन-देन किया जाएगा ।

2) रिमोट ई—वोटिंग 25 सितम्बर 2022 को सुबह 09:00 बजे (भारतीय समयानुसार) प्रारंग होकर 27 सितम्बर 2022 को साय 05:00 बजे समाप्त होगी।

) एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद कंपनी के शेयर अधिग्रहण करने वाला व कंपनी क सदस्य बनने वाला कोई व्यक्ति और 21 सितंबर, 2022 तक की कट ऑफ डेट तक शेयर रखने वाले evoting@nsdl.co.in या piccadilygroup34@rediffmail com पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यदि एक व्यक्ति ई—वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत हैं, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी व पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

4) सदस्य ध्यान दें कि (ए) एजीएम से पूर्व रिमोट ई—वोटिंग से अपने वोट डालने वाले सदस्य एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन दोबार वोट डालने के पात्र नहीं होंगे और (बी) एक व्यक्ति जिसका नो सदस्यों के रजिस्टर या कट—ऑफ डेट तक डिपोजिटरी द्वारा बनाए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज हैं, वे ही केवल रिमोट ई—वोटिंग के साथ—साथ एजीएम की ई—वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के पात्र होंगे।) एजीएम की सुचना कंपनी की वेबसाइट www.picagro.com, www.bseindia.com &www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।

) इलैक्ट्रानिक वोटिंग से जुड़ी किसी पूछताछ / शिकायतों के मामले में, सदस्य अक्स पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज) और सदस्यों के लिए उपलब्ध ई-वोटिंग यूजर मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं और www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन देखें या टॉल फ्री नंबर 1800—222—990 पर कॉल करें। भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्य या जिनके ई—मेल पते कंपनी के साथ पंजीकृत

नहीं हैं, रिमोट ई—वोटिंग या एजीएम के दौरान ई—वोटिंग सिस्टम के माध्यम से अपने वोट डालने के लिए सूचना व वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए piccadilygroup34 @rediffmail.comपर कंपनी के कंपनी सचिव से संपर्क कर सकते हैं।

) कंपनी के किसी शेयरधारक की बैंक विवरण की गैर—उपलब्धता के मामले में डाक द्वारा लाभांश वारंट प्रेषित किए जाएंगे।

आगे सूचित किया जाता है कि 21 सितंबर, 2022 को वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए इक्विटी लामांश की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य के लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में नेर्धारित किया गया है। 2021—22 के लिए इक्विटी लाभांश, यदि अनुमोदित होते हैं, उन इक्विटी शेयरघारकों को चुकता किए जाएंगे जिनके नाम 21 सितंबर, 2022 को व्यापार दिन के अंत के रूप में कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में प्रदर्शित हैं।

इसके अतिरिक्त कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुपालन में, यह अधिसूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर और शेयर हस्तांतरण पुरितकाएं एजीएम के उद्देश्य के लिए 22 सितंबर से 28 सितंबर, 2022 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगे। उक्त सूचना जानकारी के लिए जारी की जा रही है और कंपनी के सभी सदस्यों के हित में है और एमसीए व सेबी परिपत्रों के अनुपालन में है ।

है। पिकांडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड हेतु हस्ता. / – (नीरज कुमार सहगल) कंपनी सचिवें स्थान : चंडीगढ़ दिनांक : 04.09.2022

5जी सेवा महीने भर में

अनीश फडणीस मुंबई, 7 सितंबर

भारती एयरटेल के मुख्य कार्या धिकारी गोपाल विट्ठल ने बुधवार की शाम ग्राहकों को भेजे पत्र में कहा कि कंपनी ने एक महीने के अंदर अपनी 5जी सेवाएं शुरू करने की योजना बनाई है।

विट्रल ने कहा है, 'हमें एक महीने के अंदर अपनी 5जी सेवाएं शुरू होने की उम्मीद है। दिसंबर तक हम प्रमुख शहरों में 5जी सेवाएं मुहैया कराने में सक्षम होंगे। इसके बाद हम पुरे देश को इन सेवाओं के दायरे में लाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेंगे।' भारती एयरटेल ने शुरू में अपनी 5जी सेवाएं अगस्त में शुरू करने का संकेत दिया था। प्रतिस्पर्धी दूरसंचार सेवा प्रदाता रिलायंस जियो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, और कोलकाता समेत प्रमुख शहरों में अपनी 5जी सेवाएं दीवाली तक शुरू कर देगी। जियो ने 2023 के अंत तक पूरे भारत में 5जी सेवाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। विट्ठल ने कहा कि एयरटेल की

5जी सेवा ऐसी स्पीड मुहैया कराएगी, जो मौजूदा समय में जताए जा रहे अनुमान के मुकाबले 20-30 गुना अधिक हो सकती है। यह सेवा विशेष जरूरतों के लिए नेटवर्क को सुगम बनाएगी। विट्ठल ने पत्र में लिखा है, 'यदि आप गेम खेलने के शौकीन हैं और शानदार अनुभव चाहते हैं तो हम आपको तेज और अबाधित नेटवर्क मुहैया कराने में सक्षम होंगे। या आप घर से काम करते हैं और निरंतर तेज इंटरनेट इस्तेमाल का अनुभव चाहते हैं तो अब आपकी यह जरूरत भी पूरी हो जाएगी।

दिनांकः ०७ सितम्बर,2022 निखिल नंदा स्थानः नई दिल्ली प्रबंध निदेशव

E-COMMERCE BUZZ

Online retailers to rack up \$11.8-bn festive sales: Report

Bengaluru, 7 September

-commerce retailers led by Amazon and Flipkart are expected to garner sales worth \$11.8 billion this festive season, comfortably more than double the pre-pandemic

according to a report by consulting firm Redseer. Covid-19 has accelerated the shift to e-commerce, with an increasing number of consumers shopping online at a higher frequency than last year. analysts say.

This year's numbers are projected to increase by 28 per cent from 2021, which saw festive season sales of about \$9.2 billion.

The spurt in sales will further push the overall online retail gross merchandise value (GMV), up 30 per cent from \$52 billion in 2021 to reach \$68 billion this year.

shoppers from 2018. This has ter sales worth \$5.9 billion, a 28



been driven by accelerated digper cent increase from last year ital adoption and increasing (\$4.8 billion). Compared to penetration in tier-2 cities and 2018, the Redseer report is probeyond," said Sanjay Kothari, jecting a 3x growth in online associate partner, Redseer festive sales GMV this year. Strategy Consultants. "We Participation of online shopexpect this expanded customer pers during the festive week has

ing the festive period as well." The festive month starts from the first sales day and lasts roughly till the Diwali week, and includes non-sales days in "We are forecasting 4x the interim. This year, the first growth in the number of online week itself is expected to regis-

base to reflect higher sales dur-

for shoppers across city types," said Kothari.

The launch of new e-commerce models such as live and video commerce will further drive the growth of online shoppers, especially in tier-II cities and beyond.

India's e-commerce spending is expected to grow twofold to \$130 billion-plus in GMV by 2025, with online shoppers projected to increase to 300 million, according to a report by US-based research group Bernstein. Growth is expected to be led by new online shoppers, primarily from tier II/III cities.

According to Bernstein esti-Walmart-owned Flipkart leads the Indian ecommerce market with annual sales of \$23 billion in 2021. Amazon is the second-biggest player with \$18-20 billion of GMV last year. Reliance comes next with sales of around \$4.6 Bernstein billion. Amazon's growth in India has come at a high cost of over \$6.5 billion-plus invested to date.

E-commerce firms top list of grievances with a 48% share

cent in CY22.

also doubled from 18 per cent

in CY18 to a projected 38 per

increasing awareness of the fes-

tive sales among shoppers,

growing reach, targeted selec-

tion, and expansion of products

within the affordability range

"This is mainly due to

SANJEEB MUKHERJEE New Delhi, 7 September

With a share of nearly 48 per cent, e-commerce companies have once again topped the list of sectors that have received complaints through the National Consumer

Helpline between January and August. Government data showed that the second highest number of calls (14 per cent) received on the helpline were general enquiries. In e-commerce, most consumer grievances concerned money paid by users not being refunded by companies, followed by deficiency in services. State-wise, the maximum complaints came from Uttar Pradesh. followed by Maharashtra and Delhi.

In a related development, the Centre on Wednesday said it will hold Lok Adalats in the next few months to dispose of almost



six lakhs consumer cases that were pending in courts. About 4.5 lakh of the cases are pending in district commissions, 1.4 lakh cases in state commissions, and over 22,000 cases in the National Consumer Disputes Redressal Commission, Consumer Affairs Secretary Rohit Kumar Singh said.

Singh said the consumer affairs ministry has divided the cases sector-wise — 1.7 lakh cases related to insurance, 72,000 to banking and over 60,000 cases to housing.

'Consumer durables to log double-digit revenue growth'

PRESS TRUST OF INDIA Mumbai,7Septembe

Despite increasing margin pressure, the consumer durables sector is likely to witness a double-digit volume growth, pushing its revenue up by 15-18 per cent to ₹1 lakh crore this fiscal, said a CRISIL report on Wednesday.

According to the report, a 10-13 per cent spike in demand/volume will be driven by both urban and rural segments - led mostly by the AC and refrigerator segments though rural demand will come into play in the second half of the fiscal. The industry had crossed the pre-pandemic mark in value terms last fiscal, and this fiscal, it will scale past the pre-pandemic volume mark by 3 per cent, the report added.


#BSMorningShow





How can India make its cars safer and save lives?





Should India consider raising the retirement age?





Are auto ancillaries a favourable bet as commodity costs ease?







Mon - Fri | 8am

business-standard.com



NOTICE INVITING TENDERS

Tender Enquiry No. Work Description TPDDL/PMG/Tender/Power/ Purchase-2022-23/04 Notice Inviting bids for Purchase of up to 200 MW RTC/Peak power on firm basis for the period of 16.09.2022 to 15.10.2022.						
Purchase-2022-23/04 Notice Inviting bids for Purchase of up to 200 MW RTC/Peak power on firm basis for the period of Purchase -2022-23/04 Squidelines for short term procurement of power notified by the Ministry of power as amended from		Cost/EMD	of Bid	of Bid Submission/ Date and time of		
	Purchase-2022-23/04 Notice Inviting bids for Purchase of up to 200 MW RTC/Peak power on firm basis for the period of	Guidelines for short term procurement of power notified by the Ministry of power as amended from	08.09.2022	12.09.2022;1500 Hrs/ 12.09.2022;1530 Hrs		

Complete tender and corridendum document is available on our

ebsite www.tatapower-ddl.com—>Vendor Zone —>Tender / Corrigendum Docu Contracts - 011-66112222



JHS Svendgaard Laboratories Limited

Corporate Identity Number: L74110HP2004PLC027558 Regd. Office: Trilokpur Road, Kheri Kala -Amb, Tehsil - Nahar Distt: Sirmaur, Himachal Pradesh Ph. No.: 011-29949675 and Fax No. 01702-238830 INFORMATION REGARDING ANNUAL GENERAL MEETING

It is hereby informed that 18"Annual General Meeting ("AGM") of the Members of JHS SVENDGAARD LABORATORIES LIMITED ("the Company") will be held on Friday, September 30, 2022 at 11:00 a.m. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder, the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and General Circular board of india clasing congators and bisocostor requirements, regulations, 2010 and effect of the dated May 5, 2022 read with earlier circulars dated April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, January 13, 2021 and December 14, 2021 issued by the Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars"), to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

In compliance with the aforesaid MCA Circulars and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI" circular dated May 13, 2022, read with circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 (hereinafte referred to a "SEBI Circular"), the Notice of the AGM along with the Annual Report for the financial year 2021-22 will be sent to the Members of the Company electronically, whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent //Depository Participant(s) as on September 2, 2022. Amember may demand the hard copy of the same by writing us at cs@svendgaard.com. The Notice and aforesaid documents will also be available on the Company's website https://www.svendgaard.com/. The Notice and aforesaid documents will also be available on the Company's website https://www.svendgaard.com/ annual reports.html, on the websites of the Stock Exchange, i.e., BSE Limited at https://www.svendgaard.com/ and the National Stock Exchange of India Limited at https://www.svendgaard.com/ and also on the websites of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://www.svendga.com/ and also on the websites of National Securities Depository Limited ("NSDL") at https://www.svendga.com/.

Remote e-Voting, Participation at the AGM through VC/OAVM and e-Voting at the AGM:

The Company has engaged the services of NDSL as the authorized agency for conducting of the AGM through VC/OAVM and for providing e-Voting facility. Members of the Company, holding shares in dematerialized form, as on the cut-off date of Friday, September 23, 2022, may cast their vote electronically and attend the AGM. To attend the AGM through VC/OAVM, Members are requested to login

Members may cast their vote through remote e-Voting at NDSL e-voting system by using their login credentials. The facility for e-Voting shall also be made available during the AGM to those Members who attend the AGM and who have not already cast their vote. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC / OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.

The manner of voting including voting remotely (remote e-Voting) by members holding shares in dematerialised mode and for Members who have not registered their email address will be provided in the Notice of this AGM.

Since, all the members of the Company are holding shares in dematerialized form, therefore they are requested to register/update their email address and dividend mandate with the Depository Participants required by the DP(s).

imbers are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of AGM and in rticular, instructions for joining the AGM, manner of casting the vote through remote e-Voting

Members who have not registered their e-mail address with the Company or RTA, can register their e-mail address for receipt of Notice of the AGM, Annual Report and login details for joining the AGM through VC including e-voting by sending a request to the Company at sexendgaard.com, by providing their name, folio number/DPID & Client ID, client master or copy of consolidated account statement (in the case of demat holding), copy of share certificate – front and back (in the case of physical holdings), self-attested scanned copy of the PAN card and self-attested scanned copy of Aadhar Card in support for regist

If the email id is already registered with the Company/Depository, login details for e-voting are being sen on registered email addresses of the member. Same credentials should be used for attending the AGM through VC. If the member is already registered for electronic voting, then member can use the existing login credentials for remote e-voting facility of NSDL and same credentials can also be used to attend the AGM through VC. For further details and information about registration, please refer the notice of AGM. The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide the electronic voting facility and VC facility. In case of any queries, including issues and concerns related to remote e-voting and voting at AGM you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request at evoling@nsdl.co.in or contact Ms. Pallavi Mhatre, Manager, National Securities Depository Ltd., Trade World, 'A' Wing, 4th Floor, Kamaia Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai-400013, at the designated email address: pallavid@nsdl.co.in voting@nsdl.co.in or at telephone no. +91 22 2499 4545 By Order of the Board of Directo

Nikhil Nanda

emami realty limited

CIN: L45400WB2008PLC121426

Regd. Off: Acropolis, 13th Floor, 1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, Kolkata - 700107,

Tel: 022 6625 1200; E-mail: infra@emamirealty.com Website: www.emamirealty.com NOTICE OF 14TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION & BOOK CLOSURE

NOTICE is hereby given that the 14th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Emami Realty Limited will be held on Thursday, 29th September, 2022, at 11.30 A.M. through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") only, to transact the businesses as set out in the Notice dated 9th August, 2022.

The AGM will be held without the physical presence of members at a common venue. This is in accordance with the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") Circular dated 2/2022 dated 5th May, 2022 read with General Circulars No. 20/2020 dated 5th May, 2020, No. 14/2020 dated 8th April, 2020, No. 17/2020 dated 13th April, 2020, No. 39/2020 dated 31st December, 2020, No. 02/2021 dated 13th January, 2021, No. 19/2021 dated 8th December, 2021 and No. 21/2021 dated 14th December, 2021 (collectively referred to as "MCA Circulars") and Securities and Exchange Board of India's (SEBI) Circular dated SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/ 2020/79 dated 12th May, 2020, No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021 and No. SEBI/HO/CFD/CMD2/ CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 (collectively referred to as "SEBI Circulars"). The Notice of AGM along with Annual Report 2021-22 have been sent in electronic mode only to the member whose e-mail IDs are registered with the Company/Registrar & Share Transfer Agents ('RTA') or relevant Depository Participant(s) in accrodance with the aforesaid Circulars. The electronic dispatch of Notice and Annual Report to the Members has been completed on 7th September, 2022 The Annual Report for Finanical Year 2021-22, Notice of 14th AGM and the instructions for e-voting are available on the Company's website www.emamirealty.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and the Notice of 14th AGM is also available on CDSL's e-voting website www.evotingindia.com.

The Company is pleased to provide the facility of e-voting to its Members to enable them to exercise their right to vote electronically on the businesses set out in the Notice dated 9th August 2022, using remote e-voting system as well as e-voting at the AGM through electronic voting system of Central Depository Services (India) Limited (CDSL). All the Members are hereby nformed that the businesses as set out in the said Notice shall be transacted through voting by

The detailed instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the Notice of AGM. Members are requested to note the following:

- (a) The remote e-voting period shall commence on Saturday. 24th September, 2022 from 10:00 a.m. (IST) and ends on Wednesday, 28th September, 2022, at 5:00 p.m. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by the CDSL at 5.00 PM on 28th September, 2022 and no e-voting will be allowed thereafter. The facility for e-voting will also be made available during the AGM for the Members who attend the meeting and have not cast their vote by remote
- b) The voting rights of the Members shall be in proportion to their share in the paid-up equity share capital of the Company as on 22nd September, 2022 ('cut-off date'). A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility

Those who become Members of the Company after sending of AGM Notice and Annual Report and holding shares as on 22nd September, 2022 (cut-off date) may write to CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or to the Company at infra@emamirealty.com requesting for e-voting details. However, those Members already registered with CDSL for remote e-voting can use their existing login ID and password to exercise their votes.

Members holding shares in physical mode and who have not registered/ updated their email addresses with the Company are requested to update their email addresses by submission of ISR-1 duly filled and signed and other relevant forms and supporting documents with the RTA at mdpldc@yahoo.com or to the Company at infra@emamirealty.com. Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with the relevant Depository Participants as per process advised by the Depository Participants.

In case you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting, you may refer to the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdsl.com or contact Mr. Nitin Kunder (022- 23058738) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542) or alternatively, may write to Mrs. Payel Agarwal, Company Secretary, Acropolis, 13th Floor, 1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba Kolkata-700107, Email id payel.jain@emamirealty.com

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues elated to login through Depository i.e. CDSL and NSDL

	П	Login type	Helpdesk details
		Individual Shareholders holding securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk. evoting@cdslindia.com or contact at toll free number 1800 22 533
		Individual Shareholders holding securities in Demat mode with NDSL	Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

The results of e-voting and votes cast at the AGM will be announced within 48 hours from the conclusion of the AGM and will be communicated to the Stock Exchanges and hosted on the

BOOK CLOSURE

Notice is further given pursaunt to Section 91 of the Companies Act, 2013 that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from 23rd September, 2022 to 29th September, 2022 (both days inclusive) for the purpose of AGM of the Company.

By order of the Board For Emami Realty Limited Payel Agarwal Company Secretary ICSI Membership No. A22418

IIFL WEALTH MANAGEMENT LIMITED

Regd. Office: IIFL Centre, Kamala City, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013. Tel: (+91-22) 4876 5600 | Fax: (+91-22) 4646 4706

Email id: secretarial@iiflw.com | Website: www.iiflwealth.com

15TH ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD THROUGH VIDEO CONFERENCE AND DETAILS THEREOF Notice is hereby given that the Fifteenth Annual General Meeting ("AGM") of IIFL Wealth Management Limited ("Company") will

be held on Friday, September 30, 2022, at 4:00 p.m. (IST), through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as will be set out in the Notice of the AGM ("AGM Notice") in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with General Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 and all other applicable circulars issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA") in this regard and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13, 2022 and all other applicable circulars issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") in this regard (collectively referred as "MCA and SEBI Circulars").

Notice is also hereby given, pursuant to Section 91 of the Act read with Rule 10 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Book of the Company will remain closed from Monday, September 26, 2022 to Friday, September 30, 2022 (both days inclusive) for the purpose of ensuing AGM.

In accordance with the MCA and SEBI Circulars, the AGM Notice along with the Annual Report of the Company for the financial year 2021-22, will be sent only by electronic mode to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company / Depositories. Members may note that the AGM Notice and aforesaid Annual Report will also be available on the website of the Company i.e. www.iiflwealth.com and websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively and on the website of Central Depository Services (India) Limited at www.evotingindia.com.

The Company is providing remote e-voting facility ("remote e-voting") to all its Members to cast their votes on the resolutions set out in the AGM Notice. Additionally, the Company is providing the facility of voting through e-voting system during the AGM ("e-voting"). Members are requested to note that they can attend and participate in the AGM through VC / OAVM facility only. Members who have not registered their e-mail address will have an opportunity to cast their vote on the resolutions as set forth in the AGM notice through remote e-voting and e-voting. Accordingly, a detailed procedure a) for remote e-voting and e-voting and b) for participating in the AGM through VC / OAVM, for shareholders holding shares in dematerialized / physical mode, will

We encourage Members to support our commitment to environmental protection by choosing to receive the Company communication through e-mail. Accordingly, members are requested to register / update their e-mail addresses in the following

- a) Members holding shares in dematerialized form, who have not registered / updated their e-mail addresses are requested to register / update their e-mail addresses with their respective Depository Participants; and
- b) Members holding shares in physical form are requested to register / update their e-mail addresses with Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company by writing an e-mail at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

Only the Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under

Members are requested to intimate changes, if any, in their name, postal address, e-mail address, telephone / mobile numbers, bank account details, Permanent Account Number, nominations, power of attorney etc. to their Depository Participants in case the shares are held by them in dematerialized form and to Link Intime India Private Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company, in case the shares are held by them in physical form, in the manner as shall be detailed in the AGM Notice.

The AGM Notice will be sent to the Members in accordance with the applicable laws to their registered e-mail addresses in due

For IIFL Wealth Management Limited

Place: Mumbai Date: September 07, 2022

Rohit Bhase Company Secretary ACS: 21409



















